



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34]  
No. 34]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 5, 1982/माघ 16, 1903  
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 5, 1982/MAGHA 16, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय  
(परतम पक्ष)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1982

सा० का० नि० 45(अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन व्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) के अनुमरण में और भारत सरकार में नौवहन और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं० 267(इ) दिनांक 26 मार्च, 1979 को अधिग्रहण करते हुए कलकत्ता पत्तन के न्यासी बोर्ड में निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में वर्णित व्यक्तियों की संख्या को विनिर्दिष्ट करती है:—

सारणी

वे हित जिनका प्रतिनिधित्व किया जाना है	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1	2
परतन में नियोजित थर्मिक	2
वाणिज्यिक मधुद्री विभाग	1
सीमा शुल्क विभाग	1
पश्चिम बंगाल सरकार	1
रक्षा सेवाएँ	1

1281 GI/81

1	2
भारतीय रेल	1
कलकत्ता निगम	1
नौवहन और परिवहन मंत्रालय	1
	9

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1982 से लागू होगी।

[पी० डब्ल्यू/पी० टी० की०-58/81]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT  
(Ports Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 5th February, 1982

G.S.R. 45(E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in supersession of the notification of Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 267(E), dated 26th March, 1979, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (2) of the Table below to be appointed by that Government to represent the interests mentioned in column (1) of the said Table on the Board of Trustees of the Calcutta:

(101)

TABLE

Interests to be represented	Number of persons to be appointed
(1)	(2)
Labour employed in the Port	2
The Mercantile Marine Department	1
The Customs Department	1
The Government of West Bengal	1
The Defence Services	1
The Indian Railways	1
Corporation of Calcutta	1
Ministry of Shipping and Transport	1
Total:	9

2. This notification shall come into force on the 1st April, 1982.

[F.No.PW/PTB-58/81]

सं० का० वि० 46(अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन व्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखंड (ii) के उपबंधों के अनुसरण में और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं० 268 (ड) दिनांक 26 मार्च, 1979 को अधिकांश करते हुए, कलकत्ता पत्तन के व्यासी बोर्ड में निम्नलिखित सारणी के क्रमः स्तम्भ 2 और 3 में तत्संबंधी प्रतिष्ठियों में वर्णित प्रत्येक हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक निकाय द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले, उक्त सारणी के स्तम्भ 4 में वर्णित व्यक्तियों की संख्या को विनिर्दिष्ट करती है :

परन्तु सरकार के स्वास्तित्व अध्या नियंत्रण के अधीन उक्त सारणी की क्रम सं० 1, 8 और 10 के सामने वर्णित निकायों की दशा में ऐसे निकायों द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

क्रम सं०	निकायों का नाम	हित	निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4
1.	भारतीय नौवहन निगम लि०	पोतस्वामी	1
2.	इंडियन नेशनल शिपप्रांन्स एसोसिएशन	पोतस्वामी	1
3.	इण्डियन चैम्बर आफ कार्मस कलकत्ता	नाविक	1
	बंगाल नेशनल चैम्बर आफ कार्मस एण्ड इन्डस्ट्री कलकत्ता	नाविक	1
	बंगाल चैम्बर आफ कार्मस एण्ड इन्डस्ट्री कलकत्ता	नाविक	1
	राल इण्डिया शिपर्स कौमिल	नाविक	1
	कलकत्ता मिलयर्स एजेन्ट्स एसोसिएशन कलकत्ता	अन्य हित नाविक	1
	भारतीय तेल निगम लि०	अन्य हित	1
	कलकत्ता निगम	अन्य हित	1
	कर्दमीय जल परिवहन निगम	अन्य हित	1
	कुल		10

2. पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार 1 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके भीतर व्यासियों का निर्वाचन किया जाएगा।

3. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1982 से लागू होगी।

[पी टी बी 58/81]

G.S.R. 46(E).—In pursuance of the provisions of sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 268(E), dated 26th March, 1979, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column 4 of the Table below to be elected by each of the bodies to represent each of the interests, shown respectively in columns 2 and 3 of the said Table, on the Board of Trustees of the Port of Calcutta:

Provided that in the case of bodies mentioned against serial numbers 1, 8 and 10 of the said Table, being owned or controlled by the Government, the persons to be elected by such bodies shall be appointed by the Central Government.

TABLE

Serial Number	Name of bodies	Interests	Number of persons to be elected
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shipping Corporation of India Limited.	Shipowners	1
2.	Indian National Shipowners Association.	Shipowners	1
3.	Indian Chamber of Commerce, Calcutta.	Shippers	1
4.	Bengal National Chamber of Commerce and Industry, Calcutta.	Shippers	1
5.	Bengal Chamber of Commerce and Industry, Calcutta.	Shippers	1
6.	All India Shippers' Council	Shippers	1
7.	Calcutta Clearing Agents Association, Calcutta.	Other interests	1
8.	Indian Oil Corporation Limited.	Other interests	1
9.	Corporation of Calcutta	Other interests	1
10.	Central Inland Water Transport Corporation.	Other interests	1
	Total:		10

2. In pursuance of sub-section (4) of section 3 of the aforesaid Act, the Central Government hereby specifies the period ending with the 1st March, 1982, as the period within which the election of Trustees shall be held.

3. This notification shall come into force on the 1st April, 1982.

[F.No.PW/PTB-58/81]

सां कां नि० 47(अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के (खण्ड ग) के उपखंड (1) के अनुसरण में और भारत सरकार नौवहन और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं सां कां नि० 297(इ) दिनांक 30 मार्च, 1979 को अधिक्रान्त करने हुए मद्रास पत्तन के न्यासी बोर्ड में निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में वर्णित व्यक्तियों की संख्या को विनिर्दिष्ट करती है:-

## सारणी

वे हित जिनका प्रतिनिधित्व किया जाता है	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
(1)	(2)
पत्तन में नियोजित श्रमिक	2
वाणिज्यिक समुद्री विभाग	1
सीमा-शुल्क विभाग	1
तमिल नाडु सरकार	1
रक्षा सेवाएं	1
भारतीय रेल	1
मद्रास निगम	1
नौवहन और परिवहन मंत्रालय	1
कुल	9

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1982 से लागू होगी।

[एफ सं० पी० डब्ल्यू/पी० टी० बी-63/81]

G.S.R. 47(E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 297(E) dated 30th March, 1979, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (2) of the Table below to be appointed by that Government to represent the interests mentioned in column (1) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Madras.

TABLE

Interests to be represented	Number of person to be appointed
(1)	(2)
Labour employed in the Port	2
The Merchantile Marine Department	1
The Customs Department	1
The Government of Tamil Nadu	1
The Defence Services	1
The Indian Railways	1
Corporation of Madras	1
The Ministry of Shipping and Transport	1
Total:	9

2. This notification shall come into force on the 1st April, 1982.

[F. No. PW/PTB-63/81]

सां कां नि० 48(अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (II) के उपखंडों के अनुसरण में भारत सरकार को नौवहन और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं० सां कां नि० 298 (इ) दिनांक 30 मार्च, 1979 को अधिक्रान्त करने हुए मद्रास पत्तन के न्यासी बोर्ड में निम्नलिखित सारणी के क्रमः स्तम्भ 2 और 3 में तत्संबंधी प्रविष्टियों में वर्णित प्रत्येक हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक निकाय द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले, उक्त सारणी के स्तम्भ 4 में वर्णित व्यक्तियों की संख्या को विनिर्दिष्ट करती है।

परन्तु सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन, उक्त सारणी की क्रम सं० 1, 6, 7 और 9 के सामने वर्णित निकायों की दशा में ऐसे निकायों द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जायेंगे :

## सारणी

क्रम सं०	निकायों के नाम	हित	निर्वाचित किये गये व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4
1.	भारतीय नौवहन निगम लि०	पोतस्वामी	1
2.	इंडियन शिपआनर्स एसोसिएशन	पोतस्वामी	1
3.	हिन्दुस्तान चैम्बर आफ कामर्स, मद्रास	नाविक	1
4.	मद्रास चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री मद्रास	नाविक	1
5.	ग्रौल इन्डिया शिप्स कौन्सिल	नाविक	1
6.	भारतीय खाद्य निगम	नाविक	1
7.	मिनरल एण्ड मेटल ट्रेडिंग कारपोरेशन लि०	नाविक	1
8.	द मद्रास कस्टम्स, क्लियरिंग एण्ड शिपिंग एजेन्ट्स एसोसिएशन	हित	1
9.	मद्रास रिकार्डनरिज लि०	अन्य हित	1
	कुल		9

2. पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार 1 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिसके भीतर न्यासियों का निर्वाचन किया जाएगा।

3. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1982 से लागू होगी।

[एफ सं० पी० डब्ल्यू/पी० टी० बी-63/81]

एम० पी० एम्बोस, अपर सचिव

G.S.R. 48(E).—In pursuance of the provisions of sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 298(E), dated 30th March, 1979, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column 4 of the Table below to be elected by each of the bodies to represent each of the interests,

shown respectively in column 2 and 3 of the said Table, on the Board of Trustees of the Port of Madras:

Provided that in the case of bodies mentioned against serial numbers 1, 6, 7 and 9 of the said Table, being owned or controlled by the Government, the persons to be elected by such bodies shall be appointed by the Central Government.

TABLE

Serial Number	Name of bodies	Interests	Number of persons to be elected
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shipping Corporation of India Limited.	Shipowners	1
2.	Indian National Ship-owners Association.	Shipowners	1
3.	The Hindustan Chamber of Commerce, Madras.	Shippers	1
4.	The Madras Chamber of Commerce and Industry, Madras.	Shippers	1

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	All India Shippers' Council	Shippers	1
6.	Food Corporation of India	Shippers	1
7.	Minerals and Metals Trading Corporation Limited.	Shippers	1
8.	The Madras Customs, Clearing and Shipping Agents Association.	Other interests	1
9.	Madras Refineries Limited	Other interests	1
Total:			9

2. In pursuance of sub-section (4) of section 3 of the aforesaid Act, the Central Government hereby specifies the period ending with the 1st March, 1982, as the period within which the election of Trusts shall be held.

3. This notification shall come into force on the 1st April, 1982.

[F. No. PW/PTB-63/81]

S. P. AMBROSE, Additional Secretary